

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिकहरना, ढाका।**

पत्रांक - ~~1766/2139~~ सिकहरना, ढाका, दिनांक - ~~21/12/22~~.....

प्रेषक :-

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, सिकहरना, ढाका।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
विश्वसरैया भवन, पाच्चा तल्ला, बिहार, पटना।

विषय :-


M/R (3054) New Maintenance Police 2018 योजना हेतु आवंटन अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि इस प्रमंडलान्तर्गत M/R (3054) New Maintenance Police 2018 योजना के अधीन कराये गये कार्य के विरुद्ध भुगतान हेतु आवंटन अधियाचना विहित-प्रपत्र में संलग्न कर समर्पित किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
21/12/22

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,  
सिकहरना, ढाका।

  
21/12/22

# Rural Works Department

Requisition Formate for Scheme Head-MR(3054) under Bihar Rural New Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of the Division :- Rural Works Department, Works Div. Dhaka

Sl.	Package No.	Name of Road	Project id as per MIS	A/A Letter No. & Date	Administrative Approval		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of R/I (in mm/km)	Thickness of Bitumen layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	Up-to date expenditure as per MIS	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (in km)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance (in Lakh)										
1	RM/EA/SIK/22/0006	Barharwa Faich Mohammad to Sisaharu Ansan tola	31708612002	2090/06.05.2022	1.650	98.65000	76.78667	21.47222	19 MBD-09.12.2022	08.09.2023		3126.117	25	5	0.00	0.00	76.77358	
Total :-															0.00	0.00	76.77358	

प्रमाणित किया जाता है कि पथ में कराये गये कार्य के सभी अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन संबंधित कनीय अभियंता 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन संबंधित सहायक अभियंता एवं 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन अखोहस्ताक्षरी यथा कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जा चुका है। कराया गया कार्य मानक एवं विनिर्देशों के अनुरूप है।

Divisional Accounts Officer  
Rural Works Div, Dhaka

Executive Engineer  
RWD (W) Div. Dhaka  
21/12/22



**FORM GFR 19-A**

(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)  
**Form of Utilization Certificate Up to the Month of upto.....**  
**MR-3054 (New Maintenance Policy)**

**PIU :- EE RWD (W) DIVISION DHAKA**

Sl.	Name of the Scheme	Sanction No. & Date with Amount (Rs. In Lakh)	Amount Received (Rs. In Lakh)	Particulars
1	Construction of Rural Roads Under MR-3054 (New maintenance Policy)			Certified that out of Rs. .... Lacs received the year 2022-23 in favor of Executive Engineer, R.W.D. (W), Division Dhaka a sum of Rs. .... lacks has been utilized for the purpose of MR-3054 (New Maintenance Policy) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned of Rs. .... Remaining unutilized at the end of the period under.
Total :-				

Certified that I have satisfied my self that the condition on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

  
**Divisional Account Officer**


**R.W.D. (W) Div., Dhaka**

Kind of Checks Exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conduct by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Construction material have been tested.
- Measurement have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- All other codal Formalities have been observed.

Physical Progress achieved :-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.

  
**Executive Engineer**  
**R.W.D.(W) Div., Dhaka**

NAME OF ROAD:-BARHARWA PHATEH MAHMAD TO SISHANI ANSARI TOLA

Y = 0 * X ^ 2 + 0.816 * X + 249		
X = 3409		
Y = 3030		
(R) RURAL ROAD		
Good	Average	Poor
<4000	4001-5000	>5001


~~Amal~~  
20.12.22  
EB



Name of Customer: Construction (Pro-Tulal Ahmad)  
Name of Work/ Road: Barewa Phase Mohmed to Sakh Road  
Lab Job number: 8  
Date: 12/20/2022  
Section No.: 8

Test Date: 12/20/2022  
Machine No: 406  
Start S No:   
Start E No:   
Wavelength:   
Start Location:   
End Location:   
Road Name: Mohmed to Sakhani Anasri Iola  
Road Type: (A) ASPHALTIC  
Side:   
UTV Range: 1696 To 5000 Interval 1000 mm/run  
Dist Range: 0 To 0.36 0.02 ~ 1000 m  
Equation: best

Print Generate Report and Graph Redraw Graph Map View



Subendrakr  
2012.22  
J.E

May  
20/12/22  
AB

Amal  
20.12.22  
CE